

अध्याय - 5 | रहीम के दोहे

QUIZ
PART-01

1. अब्दुरहीम जी का जन्म किस शताब्दी में हुआ था?

- A. 15वीं शताब्दी
B. 16वीं शताब्दी
C. 17वीं शताब्दी
D. 18वीं शताब्दी (B)

व्याख्या: कवि परिचय में उनका जन्म 16वीं शताब्दी में बताया गया है।

2. रहीम ने किन भाषाओं का प्रयोग किया?

- A. हिंदी और उर्दू
B. संस्कृत और प्राकृत
C. अवधी एवं ब्रज भाषा
D. तमिल और तेलुगु (C)

व्याख्या: उनके दोहों में अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है।

3. "जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार" का क्या भाव है?

- A. तलवार अधिक उपयोगी है
B. सुई बेकार है
C. छोटी वस्तु भी महत्वपूर्ण होती है
D. बड़ी वस्तु ही श्रेष्ठ है (C)

व्याख्या: रहीम बताते हैं कि हर वस्तु का अपना महत्व होता है, छोटी चीज भी उपयोगी होती है।

4. पेड़ अपने फल किसके लिए उगाते हैं?

- A. अपने लिए
B. पशुओं के लिए
C. दूसरों के लिए
D. केवल मनुष्यों के लिए (C)

व्याख्या: दोहे में बताया गया है कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, बल्कि दूसरों के लिए होते हैं।

5. सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति का उपयोग किसके लिए करते हैं?

- A. केवल अपने लिए
B. दूसरों की भलाई के लिए
C. संग्रह करने के लिए
D. दिखावे के लिए (B)

व्याख्या: ज्ञानी और सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति समाज की भलाई के लिए उपयोग करते हैं।

6. "रहीमन धागा प्रेम का" में प्रेम के धागे को कैसा बताया गया है?

- A. मजबूत
B. कठोर
C. नाजुक
D. लंबा (C)

व्याख्या: प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, इसलिए उसे तोड़ना नहीं चाहिए।

7. प्रेम का धागा टूटने पर क्या होता है?

- A. वह पहले जैसा हो जाता है
B. वह और मजबूत हो जाता है
C. वह फिर नहीं जुड़ता या गाँठ पड़ जाती है
D. वह गायब हो जाता है (C)

व्याख्या: यदि धागा टूट जाए तो जुड़ने पर भी उसमें गाँठ पड़ जाती है और पहले जैसी सहजता नहीं रहती।

8. रहीम के दोहे किस विषय पर प्रसिद्ध हैं?

- A. युद्ध
B. राजनीति
C. आम जन-जीवन
D. विज्ञान (C)

व्याख्या: उनके दोहे आम जन-जीवन में अत्यंत प्रसिद्ध हैं।

9. रहीम ने छोटे लोगों या वस्तुओं के बारे में क्या संदेश दिया है?

- A. उन्हें त्याग देना चाहिए
B. उन्हें अनदेखा करना चाहिए
C. उन्हें महत्व नहीं देना चाहिए
D. उन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए (D)

व्याख्या: रहीम कहते हैं कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए।

10. रहीम के अनुसार मनुष्य को कैसा नहीं होना चाहिए?

- A. परोपकारी
B. स्वार्थी
C. सज्जन
D. ज्ञानी (B)

व्याख्या: दोहे में बताया गया है कि मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए और अपने संसाधनों का उपयोग समाज के लिए करना चाहिए।